



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 330]
No. 330]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1982/कार्तिक 18, 1904
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 1982/KARTIKA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Fading is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौबत और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

सां०का०नि० 677(अ).—जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 133 के
उपखंड (1) में व्यवहित है, मोटरवाहन (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, 1946
में दून: संशोधन करने के लिये नौबत और परिवहन मंत्रालय ने भारत
सरकार की अधिसूचना सं० सां०का०नि० 570(क) जो 13 सितम्बर,
1982 को प्रकाशित की गई थी, उसके महत्त्वपूर्ण प्रभावित होने
वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की
तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद आपत्ति और
सुझाव प्राप्त किये गये थे।

और उक्त अधिसूचना 15 सितम्बर, 1982 को आम लोगों को
उपलब्ध कराई गई थी।

और इस बारे में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया
गया है।

इसलिये सामान्य अनुच्छेद अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की
धारा 22 के साथ पठित मोटरवाहन अधिनियम, 1939 (1939 का 4)

की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए अब केन्द्रीय सरकार
एतद्वारा मोटरवाहन (तृतीय पक्ष बीमा) नियम, 1946 में निम्नलिखित
संशोधन करती है—

1. (1) ये नियम मोटरवाहन (तृतीय पक्ष बीमा) (संशोधन) नियम,
1982 कहें जायेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से
प्रवृत्त हो जायेंगे।

2. मोटरवाहन (तृतीय पक्ष बीमा) नियम 1946 के नियम 15 ख
में—

(क) उप नियम (1) में “एक लाख” शब्द के स्थान पर “पाच
लाख” शब्द रहेंगे।

(ख) उपनियम (2) में “100 रुपये” शब्द और एक के स्थान पर
“200 रुपये” शब्द रहेंगे।

(ग) उपनियम (3) और परन्तुकों में जहाँ जहाँ “बारह लाख
रुपये या 1500 रुपये” लिखे हैं वहाँ उनके स्थान पर “बीस
लाख रुपये या दो हजार पाच सौ रुपये” शब्द रहेंगे।

[सं० टी० डब्ल्यू०/टी०जी०एम० (44)/79]

डी० आर० बच्छाण, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1982

G.S.R. 677(E).—Whereas the draft rules further to amend the Motor Vehicle (Third Party Insurance) Rules, 1946, were published as required by sub-section (1) of section 133 of the said Act, in the Gazette of India Part II Section 3, Sub-section (i), dated 15th September, 1982 under notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. GSR 570E dated 15th September, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 15th day of September, 1982.

And whereas objections or suggestions received in the matter have been considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), read with Section 22 of General Clauses Act 1897 (X of 1897), the Central Government hereby makes the following amendments to the Motor Vehicles (Third Party Insurance) Rules, 1946—

1. (1) These rules may be called the Motor Vehicles (Third Party Insurance) (Amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 15B of the Motor Vehicles (Third Party Insurance) Rules, 1946;
 - (a) in sub-rule (1), for words "one lakh", the words "five lakhs" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), for the letters and figures "Rs. 100/-", the letters and figures "Rs. 200/-" shall be substituted;
 - (c) in sub-rule (3) and the proviso, for the words, letters and figures "rupees twelve lakhs or Rs. 1500/-" wherever they occur, the words "rupees twenty lakhs or rupees two thousand five hundred" shall be substituted.

[No. TW/TGM(44)/79]
B.R. CHAVAN, Dy. Secy.